

BRAWN



31st August, 2022

The Deputy General Manager, Department of Corporate Relationship BSE Limited, P.J. Towers Dalal Street, Mumbai -400001.

SCRIP CODE: 530207

Subject: Newspaper Advertisement 37th Annual General Meeting through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means (VC/ OAVCM)

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of advertisement intimating 37th Annual General Meeting of the Company which will be held on 24th September, 2022 through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means published in the following newspapers:

- 1) Business Standard (English Edition), on 31st August, 2022
- 2) Business Standard (Hindi Edition), on 31st August, 2022

This is for your information and record.

Thanking you.

For and on Behalf of

Brawn Biotech Limited

Priyanka Sharma

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

BRAWN BIOTECH LTD.

(Formerly Known as Brawn Pharmaceuticals Ltd.)

Regd. Office: C-64, Lajpat Nagar-1, New Delhi-110024, INDIA Tel: 01129815331

Email: solution@brawnbiotech.com, Website: www.brawnbiotech.com

Corporate Office: Plot No. - 30, Sector - 33, Near Hero Honda Factory, Gurugram - 122001, Haryana , INDIA Tel: 0124-4666152, 4222462 Email: solution@brawnbiotech.com, Website: www.brawnbiotech.com

...for better life

Ph. No: 011298153311 NOTICE OF THE 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE &

E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the Thirty Seventh (37th) Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Brawn Biotech Limited ('Company') will be held on Saturday, September 24, 2022 at 01:00 P.M IST, through Video Conferencing ("C")/Other Audio Video Means ("OAVM") facility without the physical presence of the Members at the meeting, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular no. No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5 2020and Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and SEBI circular no. SEBI/HO/CED/CMD1/CIR/P/2020/79dated May 12, 2020and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/P/2022/62 dated May 13, 2022 ('SEBI Circulars') (MCA Circulars and SEBI Circulars collectively referred as 'Circulars'), to transact the businesses as set out in

Notice is further given that the Register of members and Share Transfer books of the Company will remain closed on Saturday, 17" September, 2022 to Saturday, 24" September, 2022 for the purpose of 37" Annual General Meeting.

The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company, Members participating through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The facility for appointment of proxies by the Members will not be available since this AGM is being held through VC/OAVM.

In compliance with the above said Circulars, the dissemination of the Notice of the AGM along with the Annual Report for FY 2021-22 ('Annual Report') have been completed on 27th August, 2022 through electronic mode to those Members whose email ids are registered with the Company/Registrar and Transfer agent ('RTA') and Depository Participants ('DP').

The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.brawnbiotech.com, and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE limited a www.bseindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), the Company is providing the remote e-Voting facility before the AGM and e-Voting facility at the AGM to its Members, through e-Voting services of CDSL, to exercise their right to vote on all the resolutions proposed to be transacted at the AGM by electronic means. In this regard, Members are hereby informed that:

- a) The remote e-Voting period will commence on Wednesday, September 21, 2022 (09:00 a.m. IST) and ends on Friday, September 23, 2022 (5:00 p.m. 1ST). The remote e-Voting facility shall be disabled by CDSI, there after and shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently. During this period. Members holding shares either in
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficia owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Friday, September 16 2022, shall only be entitled to vote through remote e-Voting/e-Voting at the AGM.
- The Members who have already casted their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast the vote again through e-Voting at the AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share
- capital of the Company as on the cut-off date. A person whois not a Member as on the cut-of date should treat this Notice of AGM for information purpose only. Members whose email ids are already registered with the Company/RTA/DP, may follow the
- instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at AGM as provided in the Notice of AGM
- In case members have not registered/updated their email address for receiving Annua Reports and other communications through electronic mode and/or not register/update their bank account mandate and KYC for receipt of dividend, please follow the following instructions:

	Dematerialised Holding	Register/update the details in your demat account, as per the process advised by your respective DP
	Physical Holding	Register/update the details in prescribed Form ISR-1 along with other relevant documents/ forms as referred in SEBI Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021 and submit the same to Link RCMC Share Registry Private Limited B-25/1, Okhla Industrial Area, Phase 2, Near Rana Motors, New Delhi-110020
a)	The Results sha	Il be declared within two working days of the conclusion of the AGM and the

same, along with the consolidated Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website at www.brawnbiotech.com and websites of the Stock Exchanges i.e. BSF Limited at www.bseindia.com and and on the website of Central Depository Services Limited a www.evotingindia.com.

Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the AGM and instructions fo attending the AGM through VC/OAVM is being provided in the Notice of the AGM.

For Brawn Biotech Limited Priyanka Sharma Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

Corporate Identity Number (CIN): L14292TG1973G01001660 Registered Office: PO – Kanchanbagh, Hyderabad - 500058, Telangana, Tel. No: 040-2418 4515 Fax No: 040-29568502 Email Address: company.secretary@midhani-india.in Website: www.midhani-india.in

NOTICE TO THE MEMBERS OF 48th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Notice is hereby given that, Forty-Eight (48th) Annual General

Meeting (AGM) of the Members of Mishra Dhatu Nigam

Limited will be held on Thursday, September 29, 2022 at 11:00 a.m. (IST) through VC or OAVM, in compliance with applicable

provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rules

made thereunder, General Circular 02/2022 dated May 5, 2022

(in continuation to circulars issued earlier in this regard) by Ministry of Corporate Affairs (MCA Circular) and SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 201 (SEBI Listing Regulation), to transact the business set forth in

In compliance with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2 /CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 (SEBI Circular), the AGM Notice and Annual Report for FY 22 will be sent though

electronic mode to those Members whose email address are

registered with Depositories/ Company's Registrar and share

transfer Agent viz. Alankit Assignments Limited. The AGM

Notice and Annual Report when issued, will also be available of

the Company's website viz. https://midhani-india.in/ , on

website of National Securities Depository Limited (NSDL) at

https://www.evoting.nsdl.com and also on websites of stock exchanges i.e. BSE Limited (BSE) at https://www.bseindia.com

/index.html and National Stock Exchange of India Limited at

Members can attend the AGM through VC/OAVM facility only.

The instructions for joining AGM will form part of AGM Notice.

Members attending through VC/OAVM shall be counted for the

The Company is providing the facility to the Member of the

Company to cast their vote on the businesses set forth in the AGM Notice through remote e-voting. The detailed procedure

for remote e-voting is outlined in AGM Notice. The facility of e-

voting shall also be available to the Members at the AGM, who

Members whose e-mail ID is not registered, may kindly refer the

procedure outlined in AGM Notice for procuring User ID and

In respect of shares held in physical form by writing to the

Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) viz. Alankit Assignments Limited (ALANKIT) with details of folio number

and self-attested copy of PAN card at Alankit Assignments

Limited, Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New

Delhi - 110 055 or by sending e-mail to rta@alankit.com and

Members can also send an e-mail to Company at

Members may kindly note that Board of Director have recommended Final Dividend of Rs. 1.54/- per equity share

having face value of Rs. 10/- each. The record date for determining entitlement of Members to the final dividend for

FY 2021-22 is fixed as Thursday, September 22, 2022. The final

dividend, if approved, will be paid electronically to Members whose Account details are updated. In case Members, who

have not furnished their bank accounts or Company is unable to

remit dividend electronically, then Company shall dispatch Dividend draft/cheque to such Members by post. Members are

kindly requested to update their Bank Accounts at earliest to

Members who have not registered their e-mail address are

purpose of quorum under Section 103 of the Act.

have not cast their votes by way of remote e-voting

password and registration of e-mail ID for e-voting.

company.secretary@midhani-india.in.

receive dividend credit electronically.

notice of 48th AGM of the Company (AGM Notice).

https://www.nseindia.com/

MISHRA DHATU NIGAM LIMIT<u>ed</u>



Housing and Urban Development Corporation Ltd. (A Govt. of India Enterprise)

CIN: L74899DL1970GOI005276, GST No. 07AAACH0632A1ZF

Regd. Office: HUDCO Bhawan, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003, Tel: 011-24646899,

Email: cswhudco@hudco.org, Website: www.hudco.org.in **NOTICE**

52nd ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 52nd Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Monday, the 26th September, 2022 at 12 noon(IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the notice.

In view of continuing COVID- 19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide circular dated 5th May, 2022 read with other circularsof MCA and SEBI vide Circular dated 13th May, 2022 read with other circulars of SEBI, permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without the physical presence of members at common venue.

The 52nd Annual Report of the Company for FY 2021-22 is being sent through electronic mode to the members whose email address are registered with the Depositories/ Registrar & Transfer Agent, in compliance of the SEBI circulars. Further, notice of AGM and Annual Report are also available on the website(s) of Company at www.hudco.org.in, websites of Stock Exchange(s) i.e., National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com and BSE Limited i.e., www.bseindia.com and website of CDSL at www.evotingindia.com

Members who have not registered their e-mail address so far, or want to change their e-mail ids, are requested to register/ change the same with their Depository Participant/ RTA, so as to receive all communications electronically. To avail the NACH facility, i.e., direct credit of dividend amount in the bank account, members are requested to update their bank details with their Depository Participant.

The Company has fixed Friday, the 16th September, 2022 as the Record date for determining the entitlement of members to final dividend for FY 2021-22, if approved at the AGM. In compliance of Finance Act, 2020, with regard to TDS, the shareholders claiming exemption at nil/ concessional rate of tax are requested to inform/ submit requisite documents with the company at dividend.tax@hudco.org only, on or before, 18th September, 2022.

Members may note that their Bank Account details, as available with the records of the DP/RTA shall be used for the purpose of remittance of dividend and other cash benefits, etc., through National Electronic Clearing Service (NECS), wherever applicable. Members should ensure that correct bank details are noted in the records of the DPs/RTA, so that no ECS rejection takes place

In compliance of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 as amended, the Company is pleased to offer e-voting facility (both remote e-voting and voting at the time of AGM) through the CDSL to all the eligible members in respect of all the items to be transacted at AGM through voting by electronic means, whose names are recorded in the Register of Members (holding in physical form) or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories (holding in electronic form) on Monday, the 19th September, 2022 (cut-off date).

The remote e-voting period shall commence on Thursday, 22nd September, 2022 (9:00 a.m.) and ends on Sunday, 25th September, 2022 (5:00 p.m.) and members shall not be allowed to vote thereafter.

The members who have not casted their vote through remote e-voting can cast during the AGM using CDSL login portal. Further, the members who have casted their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.

Members are requested to refer to the detailed instructions for e-voting forming part of the AGM notice. If you have any queries or issues regarding attending AGM and e-voting from the CDSL e-voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800225533.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400013.

For any other queries members may contact Shri J K Singla, M/s Alankit Assignments Limited, RTA of the Company, Email: rta@alankit.com, Tel: 011-42541234 Fax: 011-42541201.

For Housing and Urban Development Corporation Ltd

Date:30.08.2022 Place: New Delhi Harish Kumar Sharma Company Secretary

TAMILNADU NEWSPRINT AND PAPERS LIMITED

CIN: L22121TN1979PLC007799 Registered Office: 67, MOUNT ROAD, GUINDY, CHENNAI 600 032 Phone: 044-22301094-97, 044-22354415-18 Fax: 044-22350834, 044-22354614 E-mail: invest_grievances@tnpl.co.in Website: www.tnpl.com

42ND ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD OVER VIDEO CONFERENCE, RECORD DATE AND DIVIDEND INFORMATION

Notice is hereby given that the 42^{nd} Annual General Meeting (AGM) of the company will be held through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Thursday, the 22^{nd} September, 2022 at 10.30 AM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, MCA circular dated 13.01.2021 and SEBI circular dated 15.01.2021 to transact the business set out in the Notice convening the AGM.

SERVICE OF DOCUMENTS

In compliance with the above MCA and SEBI circulars, electronic copy of the 42nd Annual Report for FY 2021-22 comprising the Notice of the 42nd AGM, Financial Statements, Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto has been sent to all the members whose email addresses are registered with the Depository Participants (DPs) Registrar and Transfer Agent (RTA). These documents are also available on the Company's website and on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Ltd. (www.bseindia.com) and

National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com). MANNER OF REGISTERING/UPDATING EMAIL ADDRESS

Members are advised to register/ update their email address and mobile number immediately, in case they have not done so earlier

- In case of shares held in demat mode, with their respective DPs.
- In case of shares held in physical mode, by accessing the link https://investors.cameoindia.com or by email to the RTA at investor@cameoindia.com with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card.
- $After \ due \ verification, the \ Company \ / \ RTA \ will \ send \ login \ credentials \ for \ attending \ the \ AGM$ and voting to the registered email address
- Any person who becomes a member of the company after despatch of the AGM Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain the user Id and password in the manner provided in the "AGM Notice."

CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Thursday, the 15th September, 2022 to Thursday, the 22[™] September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend for 2021-22, if declared.

E-VOTING

The company is providing the facility for its members to cast their votes in respect of all the items of business proposed for the 42nd AGM under any one of the options (a) remote e-voting facility (b) e-voting at AGM. For voting instructions, members may go through the voting process and instructions given in the Annual Report. Members may take specific note of

- The cut-off date for determining the voting rights is Wednesday, the 14th September, 2022.
- Only persons whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date are entitled to vote For those who have become members after the dispatch of the AGM Notice but before the date
- address as and when they become members and they can exercise their voting right in the same manner as above. The remote e-voting will commence on Saturday, the 17th September, 2022 at 9.00 a.m. (IST) and end on Wednesday, the 21st September, 2022 at 5.00 p.m. (IST).The 'Remote e-Voting' module shall be disabled by NSDL for voting there after and Members will not be allowed to

of AGM, the Company would be sending them the 42nd Annual Report to their registered email

exercise 'Remote E-Voting' beyond the said date and time. EVEN (Electronic Voting Sequence Number): 121157. The members as on the cut-off date attending the AGM are entitled to exercise their voting right

- at the meeting through e-voting, in case they have not already cast their vote by remote e-voting. No voting is permissible after the end of the AGM. Members who have cast their votes by remote e-voting are also entitled to attend the AGM but
- they cannot cast their vote again at the AGM. Website address of NSDL providing Remote e-Voting and e-Voting services:
- www.evoting.nsdl.com. Contact details in case of grievances pertaining to Remote e-Voting / e-Voting facility: Email id:
- evoting@nsdl.co.in/1800-222-990 or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL at Email id: amitv@nsdl.co.in/ Phone No:+91 22 2499 4360.

DIVIDEND

The Board of Directors have recommended a dividend of Rs. 4/- per equity share for FY 2021-22. The cut off date for the purposes of dividend for 2021-22 is 14th September, 2022 Members are advised to register their Bank a/c details with their respective DPs (in the case of demat holding)/ RTA (in the case of physical holding). For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts/ cheques will be sent out to their registered addresses. As dividend income is taxable in the hands of shareholders, they are advised to register / furnish details of tax status/ exemption as detailed in the "AGM Notice.

Members are advised to refer to the AGM Notice for full content and details. They may write/ email to the Company for any clarification

ANURADHA PONRAJ **COMPANY SECRETARY** यूको बैंक 🙌 UCO BANK Department

Date:- 31.08.2022

NOTICE INVITING TENDER UCO Bank Invites Request for Proposal (RFP) for the following

Selection of Service Provider for ATM Managed Services. For any details, please refer to https://www.ucobank.com

(Deputy General Manager) Department of Information Technology

CANTABIL RETAIL INDIA LIMITED Registered Office: B- 16, Ground Floor, Lawrence Road Industrial Area Delhi - 110035 Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1989PLC034995

Tel: 91-11-41414188, 91-11-46818101

Website: www.cantabilinternational.com

E-mail: investors@cantabilinternational.com NOTICE NOTICE is hereby pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable Rules thereunder and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulation 2015, the Register or Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed *from*. Saturday, September 17, 2022 to Friday, September 23, 2022 (both days inclusive)

hareholder entitled to vote at the said meeting and for dividend Final Dividend in respect of equity shares held in electronic form will be payable to the beneficial owners of the shares as on Friday, September 16, 2022 as per the details furnished to the Company by Depository Participant for this purpose. In case of shares held in physical form dividend will be paid to the shareholder, whose name appear on the Register of Member as on Friday, September 16, 2022.

for the purpose of 34th AGM and Final Dividend. The Company has also fixed the

record date/Cutt off date as Friday, September 16, 2022 to determine the eligib

Members are requested to furnish their Bank Account details, change of address etc. to the Company Registrars and Transfer Agents in respect of shares held in physical form and to their respective Depository Participants if the shares are held n electronic form.

This intimation is also available on the website of the company website www.cantabilinternational.com and on the website of the Stock Exchange where the shares of the company are listed at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For CANTABIL RETAIL INDIA LIMITED

Place: New Delhi Date: 30th August, 2022

POONAM CHAHAL Company Secretary and Compliance officer **BEFORE THE NATIONAL** COMPANY LAW **TRIBUNAL BENCH AT CHENNAI** CP/64/CAA/2022

MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013

In the matter of sections 230 to 232 and

other applicable provisions of the Companies Act, 2013 And

he matter of Scheme of Arrangen (Amalgamation) of 3M Electro & munication India Private Limited wi 3M India Limited

And their respective Shareholders 3M Electro & Communication

Private Limited Having its Registered Office at No. 95, (Plot Nos 95-97) Sannivasikuppam, Udhava- Nagar Thirubhuvanai Main Road Thirubhuvanai Post Pondicherry - 605 107

> Transferor Compar NOTICE

..Petitione

Notice is hereby given that by an orde dated 20th day of July 2022, the Chenna Bench of the National Company Law Tribunal has fixed the date of hearing of the Company Petition filed by the Petitions Company under Section 230 to 232 of the Company under Section 250 to 252 of the Companies Act, 2013 for the sanction of Scheme of Arrangement (Amalgamation of 3M Electro & Communication India Private Limited with 3M India Limited And their respective Shareholders, on the 14 day of September 2022. Any person sirous of supporting or opposing the said Petition should send to the Petitioner dvocates notice of his intention, signe by him or his Advocate, with his name an address, so as to reach the Petitioner Advocates not later than two days before the date fixed for hearing of the Petition Where he seeks to oppose the Petition, th grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment o the prescribed charges for the same Dated this 25th day of August, 2022

A.MURALI **PAWAN JHABAKH**

Counsel for the Petitioner New No. 115, First Floor Luz Church Road, Mylapore

Chennai - 600 004



VARROC ENGINEERING LIMITED

CIN: L28920MH1988PLC047335

Regd. Off.: Plot No. L - 4, MIDC Industrial Area, Waluj, Aurangabad – 431136 (MH) Tel No: 0240 6653700; Fax No: 0240 2564540

E-mail:<u>investors@varroc.com</u> Website: <u>www.varroc.com</u>

INFORMATION REGARDING 34th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

NOTICE is hereby given that 34th Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Company is scheduled to be held on Thursday, September 29, 2022 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conference ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the applicable provisions of he Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all the applicable circulars on the subject matter ssued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business as set out in the Notice convening the AGM. Members will be able to attend and participate in the AGM by VC/OAVM only. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum

In compliance with the aforesaid circulars issued by the MCA and SEBI, AGM Notice and Annual Report for FY 2021-22 will be sent only by electronic mode to all the Members whose email addresses are registered with the Depository Participants or the Company. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their email addresses with their Depository Participants ("DP") by following procedure prescribed by DP or alternatively, temporarily register/ update their email addresses with the Company by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Link ntime India Pvt Ltd at rnt.helpdesk@linkintime.co.in .

The Company has engaged services of NSDL for providing remote e-voting facility ('Remote e-voting') to all its members to cast their vote on all resolutions set out in the AGM Notice. Additionally, the Company, through NSDL, is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ('e-voting'). The details such as manner of (i) registering A updating email addresses, (ii) casting vote through Remote e-voting/e-voting and (iii) attending the AGM through VC

The members are requested to carefully read all the Notes set out in the AGM Notice (being sent electronically) and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through Remote e-voting / e-voting facility at the AGM.

The AGM Notice and Annual Report for FY 2021-22 will also be made available on the Company's website at www.varroc. com, website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

> For Varroc Engineering Limited By Order of the Board of Directors

Place: Aurangabad Date: August 30, 2022

Aiav Sharma Group General Counsel and Company Secretary Membership No. - ACS 9127



Place: Kolkata

Date: 30th August, 2022

Balmer Lawrie Investments Ltd. (A Government of India Enterprise)

Registered Office: 21, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001 CIN: L65999WB2001GOI093759

Telephone No: 033 22225227 Email: lahoti.a@balmerlawrie.com Website: www.blinv.com

NOTICE OF THE 21st ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) AND

CONNECTED MATTERS The 21st Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Balmer Lawrie Investments Limited ("the

Company") will be held on Tuesday, 27th September, 2022 at 04:00 P.M. through Two - way Video Conferencing ("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM") without the physical attendance of the Members, i compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the allied Rules made thereunder read with General Circular Nos. 20/2020 dated 5th May, 2020 & 2/2022 dated 5th May, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") in this regard (collectively referred to as "MCA" Circulars") to transact the businesses set out in the notice calling the AGM. The Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22 will be sent through electronic mode

o all those Members whose e-mail ids are registered with Company/Depository Participant(s) as on Friday, 19" August, 2022 (end of day) and physical Notice and Annual Report shall be sent as per Securities and Exchange Board of India Circular bearing reference no. - SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May. 2022. The same shall also be available on the website of the Company at <u>www.blinv.com</u>, on the website of the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed i.e. <u>www.bseindia.com</u> and <u>www.cse-india.com</u> and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (agency for providing the e-voting acility) on www.evoting.nsdl.com. Voting for items to be transacted in the AGM shall be conducted only through remote electronic voting process o

electronic voting during the AGM. The detailed procedure/instruction are contained in the Notice of the AGM. Manner in which the Members who are holding shares in physical form or who have not registered their

e-mail addresses with the Company can cast their vote-The Members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system provided during the

AGM as per the instructions contained in the aforesaid notice of the AGM. Manner of registering e-mail address, bank details and other details with the Company-

The Members of the Company (applicable for Members holding shares in physical mode) who have not

registered their e-mail address, bank details and other details or updates thereof with the Company are requested to register their details by submission of stipulated Forms and supporting documents to the Registrar & Share Transfer Agent ("RTA"), CB Management Services (P) Ltd. at P-22, Bondel Road, Kolkata 700 019 or by sending an e-mail at rta@cbmsl.com on or before Tuesday, 20th September, 2022. Members who are holding Shares in electronic form may note that bank particulars registered with thei

respective Depository Participants (DPs) as on the cut-off date will be used by the Company for electronic credit / dispatch of dividend. The Company or its RTA cannot act on any request received directly from the Members holding Shares in electronic form for any change or update in their particulars. Such changes are to be advised by the Members concerned to their respective DPs. Any such change effected by the DPs will automatically reflect in the Company's subsequent records.

Members are requested to quote the ledger Folio or client ID and DPID numbers in all communications addressed either to the Company or to RTA.

Book Closure - Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, 21st September, 2022 to Tuesday, 27th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of distribution of dividend for the Financial Year ended 31st March, 2022 and also for the AGM of the Company.

electronic voting process before the AGM and electronic voting during the AGM (only in case the Member has not cast his/her vote through remote electronic voting process). The remote e-voting period shall commence on Friday, 23rd September, 2022 (09:00 a.m.) and end on Monday, 26th September, 2022 (05:00 p.m.). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. During this period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Tuesday 20th September, 2022 (end of day), may cast their vote electronically.

statutory time limit of 30 days from the date of such declaration.

Abhishek Lahoti

Company Secretary ACS 25141

Voting - Voting for items to be transacted in the Notice of the AGM shall be only conducted through remote

Dividend - Upon declaration by the Members, dividend for the Financial Year 2021-22 shall be paid to those Members who are holding shares of the Company as on Tuesday, 20th September, 2022 (end of day) within the

For Balmer Lawrie Investments Limited

Place: Hyderabad

Limited, Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi – 110 055 or by sending e-mail to rta@alankit.com and Members can also send an e-mail to Company at company.secretary@midhani-india.in.

Date: August 30, 2022

requested to register the same - in respect of shares held in electronic form with their Depository Participant(s) and in

their e-mail address at earliest to receive relevant

It is advisable in good interest of Members to register/update

communication from MIDHANI via. electronic means

respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) viz. Alankit Assignments Limited (ALANKIT) with details of folio number and self-attested copy of PAN card at Alankit Assignments

Company Secretary & Compliance Officer

For Mishra Dhatu Nigam Limited

Paul Antony Place: Chennai

Date: 30.08.2022 DIPR/897/Display/2022

For TAMIL NADU NEWSPRINT AND PAPERS LIMITED

OAVM has been set out in AGM Notice which will be dispatched in due course.



निविदा की सूचना यूको बैंक निम्नलिखित मद के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर.एफ.पी.) आमंत्रित करता है:

. एटीएम प्रबंधित सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता का चयन।

किसी भी विवरण के लिए कृपया https://www.ucobank.com वेबसाइट पर देखें।

(उप महाप्रबंधक) सुचना प्रौद्योगिकी विभाग दिनांक : 31.08.2022

ब्रान बायोटैक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः सी-64, प्रथम तल, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली-110024 **कारपोरेट कार्यालयः** प्लॉट नं. 30, सेक्टर—33, निकट हीरो होंडा फैक्टरी, गुरूग्राम—122001, हरियाण वेबसाइटः www.brawnbiotech.com; ईमेलः solution@brawnbiotech.com **फोन नं.:** 011298153311

37वीं वार्षिक सामान्य सभा, बुक क्लोजर और ई-मतदान जानकारी का नोटिस

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी परिपत्र सं. 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र i. 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 और परिपत्र सं 02 / 2022 दिनांकित 5 मई, 2022 और सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांकि 12 मई, 2020 और SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/P/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 ('सेबी परिपत्र' मसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों को संयक्त रूप से 'परिपत्र' कहा गया है) के साथ पठित कंपर्न . मधिनियम, 2013 और इसके तहत नियमों और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यक नियमावती, 2015 के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम के नोटिस में यथानिधरित व्यवसायें के निष्पादन हेतु ब्रान बायोटैक लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की सैंतीसवीं (37वीं) वार्षिक सामान्य सभ 'एजीएम') सभा स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना विडियो कान्फ्रेन्सिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विडियो जरिए ('ओएवीएम') सुविधा से शनिवार, 24 सितंबर, 2022 को अप. 01:00 बजे भा.मा.स भायोजित की जायेगी।

यह भी नोटिस दिया जाता है कि 37वीं वार्षिक सामान्य सभा के उददेश्य हेतु कंपनी का सदस्य रजिस्ट और शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 17 सितंबर, 2022 से शनिवार, 24 सितंबर, 2022 तक बंद रहेंगे। सभा स्थल कंपनी का पंजीकत कार्यालय माना जायेगा। वीसी/ओएवीएम माध्यम से भाग ले रहे सदस्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम गणना उद्देश्य के लिए गिने जायेंगे। चूंकि यह एजीएम वीसी / ओएवीएम माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्ति सुविध . उपलब्ध नहीं होगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट') सहित एजीएम के नोटिस का ऐसे सदस्यों जिनके ईमेल आईडी कंपनी/रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंटों ('डीपी') के पास पंजीकृत हैं, उनको इलैक्ट्रोनिक माध्यम से प्रेषण 27 अगस्त 2022 को पर्ण कर लिया गया है।

उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट <u>www.brawnbiotech.com</u> और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएस: की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, समय—समय यथासंशोधित, के नियम 20 और सेर्ब (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 ('सूचीबद्ध दायित्व') के विनियम 44 के थ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी एजीएम में इलैक्ट्रोनिक माध्यम से निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित सभी संकल्पों पर अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लए एजीएम से पूर्व रिमोट ई-मतदान सुविधा और एजीएम में ई-मतदान सुविधा सीडीएसएल की -मतदान सेवाओं के माध्यम से अपने सदस्यों को प्रदान कर रही है। इस संबंध में, सदस्यों को एतद्वारा सचित किया जाता है कि:

) रिमोट ई—मतदान अवधि बुधवार, 21 सितंबर, 2022 (समय पूर्वा. 09:00 भा.मा.स.) शुरू होगी औ शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 (समय अप. 05:00 भा.मा.स.) समाप्त हो जायेगा। रिमोट ई-मतदान सुविधा इसके बाद सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जायेगी और उपरोक्त तिथि व समय के बाद मतदान की अनुमति नहीं होगी। सदस्य द्वारा एक बार एक संकल्प पर मतदान कर दिए जाने के बाद सदस् को आगे इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि में, भौतिक रूप या अभौतिक रूप में शेयर के धारक सदस्य एजीएम से पूर्व रिमोट ई-मतदान द्वारा अपने मतदान कर सकेंगे।

ी) केवल वे व्यक्ति जिनके नाम कट—ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022 को सदस्य रजिस्टर या डिपोजिटरियों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामी रजिस्टर में दर्ज होंगे, वे रिमोट ई-मतदान/ एजीए में ई-मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

fl) ऐसे सदस्य जो एजीएम से पूर्व रिमोट ई—मतदान द्वारा अपना मतदान अधिकार प्रयोग कर चुके होंगे वे भी वीसी /ओएवीएम माध्यम से एजीएम में उपस्थित /भाग ले सकते हैं किंत वे एजीएम ई-मतदान माध्यम से अपना मतदान अधिकार पुनः प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

डी) सदस्यों के मतदान अधिकार कट–ऑफ तिथि को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को कंपनी का सदस्य नहीं होगा, वह एजीएम के इस नोटिस को केवल जानकारी उददेश्य के लिए लें।

सदस्य जिनके ईमेल आईडी पहले से कंपनी/आरटीए/डीपी के पास पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई-मतदान और एजीएम में ई-मतदान के लिए एजीएम के नोटिस में यथाप्रदत्त निर्देशों का अनुसरण करें।

क) सदस्य जिन्होंने इलैक्ट्रोनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट और अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए अपने ईमेल पते पंजीकृत /अद्यतन नहीं किए हैं और /या लामांश प्राप्त करने के लिए अपना बैंक खाता विवरण अधिदेश और केवाईसी पंजीकृत /अद्यतन नहीं किए हैं, वे कृपया निम्नलिखित निर्देशों का

अभौतिक शेयर	आपके संबंधित डीपी द्वारा बतायी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमेट खाते					
धारण	में विवरण पंजीकृत / अद्यतन करें					
	सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांकित					
	3 नवंबर, 2021 में यथानिर्दिष्ट अनुसार अन्य संबंधित दस्तावेजों / प्रपत्रों के साथ					
	निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 में विवरण पंजीकृत/अद्यतन करें और इन्हें लिंक					
	आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड, बी–25 / 1, ओखला इंडस्ट्रियल					
	एरिया, फेज २, निकट राना मोटर्स, नई दिल्ली—110020 को जमा करें।					

ती) परिणाम एजीएम समाप्ति के दो कार्य दिवसों के अंदर घोषित किए जायेंगे और ये संवीक्षक की रिपोर के साथ कंपनी की वेबसाइट www.brawnbiotech.com और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध किए जायेंगे।

रिमोट ई–मतदान, एजीएम में ई–मतदान की विस्तृत प्रक्रिया तरीका और वीसी/ओएवीएम माध्यम एजीएम में भाग लेने के लिए निर्देशों एजीएम के नोटिस में प्रदान किए जा रहे हैं।

हिते बान बायोटैक लिमिटेड हस्ता./ प्रियंका शर्मा

शाखा कार्यालय:बीपी-49, प्रथम तल, नीलम बाटा रोड, एनआईटी फरीदाबाद-121001हरियाणा

■IndiaShelter इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

सांकेतिक कब्जा ज्ञात ज्ञान,अगर कोई है

के प्रावधान के साथ ई - नीलामी बिक्री नोटिस इस प्रकार आमतौर पर जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ऑं)और गारंटीकर्ता(ऑं)को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अच

के साथ अचल सम्पत्ति

का विवरण

गणिन मधी के मधी अंग व दिस्से

जसमें MIG फ्लैट नं.जी-3, ग्राउंड

फ्लोर, एरिया-600 वर्गफीट, प्रॉपर्टी नंबर-717 जो गांव

महिबाबाद अनमोल अपार्टमेंट-2

शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1,

परगना लोनी. तहसील और जिला

पर्वः सर्विसंलेन. पश्चिमः

दक्षिण:प्लॉट नंबर -716।

धरोहर राणि का भगतान डीडी के माध्यम से इंडिया शेल्टर फाईनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष फरिदाबाद, में देय स्थानीय शाखा अथवा एक्सिस बैंक खाता नं 911020001057107 , आईएफएससी कोड : UTIB0000131 , शाखा गुडुगाँव एवं शाखा कोड 000131 में NEFT/ RTGS के द्वारा किया जाएगा । बिक्री के तहत संपत्तियों के

संबंध में किसी भी वर्गीकरण / आवश्यकता के मामले में बोलीदाता श्री कैलाश शर्मा (+91 8588892464) एवं श्री अजय गुप्ता (91 7906826375) से संपर्क कर सकते है बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए , कृपया इंडिया शेल्टर फाईनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदान वेबसाईट www.indiashelter.in और

प्लॉट नंबर-718,

नती सुरक्षित लेनदार को चार्ज किया गया है , को ''जैसा है ', जहां है ''और 'जो कुछ भी हैं 'के आधार पर कंपनी की बकाया वसूली हेतु बेची जा

पंजिकृत कार्यालय:-प्लॉट नं. 15,6वॉ तल,सेक्टर -44,इंस्टीट्यूशनल एरिया,गुडगॉव हरियाणा-122002

दिनांक

26-08-2022

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 30 अगस्त, 2022

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

1.ऋणी/(यों) एवं जमानतदार /(रों) एवं

कानूनी वारीस/(सो)के नाम एवं पता 2. कुल बकाया ब्याज के साथ तक से

ावासी:-मकान नं.बी- 45 शिव चौक के पा

गणेशपरी साहिबाबाद गाजियाबाद 201005 उ

कल बकाया राशि: रु. 17.74.051.63 (रुप

ग्रंबर लाख चौर चर र चार रत्यात्व और तरेग्रंद है

www.indiashelter.auctiontiger.net परदेखें ।

दिनांक 31.08.2022

स्थान : फरिदाबाद

HL11MILONS000005028441

INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

Registered Office: 5th Floor, Building No. 27, KG Marg Connaught Place

New Delhi – 110 001 Tel: 011-43532950, Fax: 011-43532947

Website: www.indiabullshomeloans.com, Email: homeloans@indiabulls.com PUBLIC NOTICE OF CONVENING 17TH ANNUAL GENERAL **MEETING THROUGH VC / OAVM**

Members of Indiabulls Housing Finance Limited ("the Company") will be hel on Monday, September 26, 2022, at 04:00 P.M. (IST) through Video Conferencin "VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), for which the Company has mad arrangements through KFin Technologies Limited ("KFintech"), Company's Registrars and Transfer Agents, in compliance with all the applicable provision of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder an the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosur Requirements) Regulations, 2015 read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the businesses set out in the Notice calling the AGM. Membe ttending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckonin the quorum under Section 103 of the Act.

In accordance with the relevant circulars, the AGM Notice and the Annual Repo for the financial year 2021–22 comprising of Financial Statements, Board Report's Auditor's Report and other documents required to be attached therewith ("Annua Report"), will be sent in due course, only by email to all those Members, whos email addresses are registered with the Company or the Depository's Participant(s "DPs"). The aforesaid documents will also be available on the website of the my viz. www.indiabullshomeloans.com and also on the Website of the Stock Exchange(s) i.e. BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India imited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM notice and Annual Report will also be available on the website of KFintech a https://evoting.kfintech.com.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all it Members to cast their votes on all the resolutions set out in the AGM Notice. The Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting") to those Members who could not cast their vote(s) by remot e-voting. The detailed procedure for e-voting before the AGM ("remote e-voting" as well as during the AGM ("e-voting") and participation in the AGM through VC OAVM, has been provided in the notes to AGM Notice which will be sent in due course, and shall be available on the websites of the Company, KFintech and Stoc

Links for remote e-voting and joining AGM through VC/OAVM facility for Members including for such Members who are holding shares in physical form, are provide below. Members are requested to carefully read all the Notes set out in AGM Notic and in particular, instructions for joining the AGM and manner of casting vote

Link to VC / OAVM

https://www.evoting.nsdl.com/ (holding securities in demat mode with NSDL)

For non-Individual Members and Members holding shares in physical form:

https://evoting.kfintech.com The Members of the Company who have not registered their email addresses ca

i)Members who have not registered their email address may temporarily get the email address and mobile number registered with KFintech, by accessing the link https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx.Member are requested to follow the process as guided to capture the email address and obile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instruction along with the User ID and Password. In case of any queries, Member may write to

ii)Alternatively, Member may send an e-mail request at the email einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, AGM Notice and the e-votin

dividend if any, directly through ECS, Members holding shares in electronic form, are requested to update the same with their DPs. Members holding shares in physica orm, are requested to update with the RTA by writing to einward.ris@kfintech.com

> By Order of the Board For Indiabulls Housing Finance Limited

Place : Gurugram Date : September 1, 2022

1.ई–नीलामी की दिनांक व समय

2.ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक 3.सम्पत्ति निरीक्षण की दिनांक एवं समय

(1.)ई-नीलामी दिनां

30.09.2022 पात: 11.30 बजे से साय

03.30 बजे तक ,5 मीनट के असिमीत

विस्तार के साथ

(2) केवाईमी के माथ रीएएरी जम

करवाने की अंतिम तिथी

29.09.2022

सायं 05.00 बजे तक(प्रथम) (3.)निरीक्षण की दिनांक 22.09.2022

पान: 10.30 बजे से सार्थ 05.00 बजे तक

इंडिया शेल्टर फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पाधिकत अधिकारी

Amit Jain

Secretary

18,00,000/(अठारह लाख रुपये मात्र) धरोहर जमा राशि 1,80,000/-(एक लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) बोली वृदि राशि

10,000/-(रू. दस हजार मात्र) असिमित वृद्धि व साथ

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेतु)

जब कि

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **महेश चंद नरवर, उमिरला देवी और जय शिव (गारंटर)** को 31.05.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HLAPAGR00220705 की राशि रू. 14.63.948.63 (रूपये चौदह लाख तिरसठ हजार नौ सौ अड़तालीस और तिरसठ पैसे मात्र) और 12.05.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 26.08.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदृद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 14,63,948.63 (रूपये चौदह लाख तिरसठ हजार नौ सौ अड़तालीस और तिरसठ पैसे मात्र) 12.05.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

मकान नंबर 38सी/बीवी/1, माप 92.99 चौ. मीटर्स, खसरा नं. 83 पर, भगवती विहार, सरस्वती विहार के पास, चक पंचम, तहसील और जिला आगरा -282007, उत्तर प्रदेश और निम्नानुसार परिबद्ध है:-

पूर्व : 16 फीट चौड़ा रास्ता और निकास पश्चिम : 16 फीट चौड़ा रास्ता और निकास उत्तर : श्री. अशोक कुमार की जमीन दक्षिण : श्री. दिनेश जैन का मकान

दिनांक : 26.08.2022 स्थान : आगरा इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

talbros टालब्रोस ऑटोमोटिव कम्पोर्नेट्स लिमिटेड सीआईएन: L29199HR1956PLC033107 पंजीकृत कार्यात्तयः 14/1, दिल्ली मधुरा रोड, पो.ऑ. अमर नगर, फरीदाबाद, हरियाणा–121003 फोन नं.: 0129-2251482, ई–मेल: seema_narang@talbros.com, वेबसाइट: www.talbros.cor

प्राधिकृत अधिकारी

65वीं वार्षिक आम बैठक रिमोट ई-वोटिंग जानकारी और बुक क्लोज़र की सूचना

तद्वारा **सूचित** किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की **65वीं वार्षिक आम बैठक** जीएम), के आयोजन हेतु सूचना में वर्णित साधारण एवं विशेष व्यवसायों के निष्पादन के लिए सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को प्रातः 11.00 बजे (IST), कम्पनी अधिनियम, 2013 के सर्भ लागू प्रावधानों, तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 20/2021 दिनांकित 05 मई, 2020, नंबर 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 (**"एमसीए सर्कुलर्स**" भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर पी/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021, सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीफडी/सीएफडी/सीएफडी/सीफडी/स कांफ्रीन्सन (वीसी)अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी कम्पनी का पंजीकृत् कार्यालय अधीत 14/1, दिल्ली मधुरा रोड, पी.ओ. अमर नगर, फरीदाबाद हरियाणा—121003 बैठक का स्थान माना जाएगा।

मसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स के निबन्धनों में, 65वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय व 2021—22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट मोमवार, दिनांक 29 अगस्त, 2022 को केवल इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा चुकी हैं, जिनके ई-मेल पत्ते कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत हैं। क्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी)/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) यानि केफिन टेक्नोलॉज़ीज लिमिटेड।

65वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2021-22 कम्पनी की वेबसाइट www.talbros.com बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की विसाइट्स <u>www.bseindia.com</u> तथा <u>www.nseindia.com</u> कमानुसार पर भी उपलब्ध हैं तथा डाउनलोड की जा सकती हैं तथा नैशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com से भी डाउनलोड की जा सकती हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ, समय-समय पर संशोधित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लाग प्रावधानों और सेबी के विनियमन 44 (सूचीबद्धता दायित्व) के अनुसार और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठक (एसएस–2) पुर सचिवीय मानकृ कृंपनी अपने सभी सदस्यों को सभी प्रस्तावों पर अपना बोट ्रालने की सुविधा प्रदान कर रही है। एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ई–वोटिंग) का उपयोग करके एजीएम बुलाने की सूचना। रिमोट ई—वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई—वोटिंग हेतू अनुदेश :

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा **शुक्रवार 23 सितम्बर, 2022 को पूर्वा. 09.00 बजे (IST)** आरंभ होगी तथा **रविवार, 25 सितम्बर, 2022 को अप. 5.00 बजे (IST)** समाप्त होगी। उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निषेध कर दी जाएगी।

कोई भी व्यक्ति जो 65वीं एजीएम बैठक की सूचना के प्रेषण के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और विच्छेदन तिथि (कट—ऑफ डेट) यानि सोमवार, 19 सितम्बर, 2022 को शेयरघारक है, वह व्यक्ति <u>evoting@nsdl.co.in</u> अथवा seema_narang@talbros.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर

सदस्य, जो रिमोट ई-बोटिंग द्वारा वोट देने के अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उनको उसमें वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

65वीं एजीएम की सूचना में रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु विस्तृत

अनदेश दिए गए हैं। <u>ई—मेल पते के पंजीकरण की विधि :</u>

. जेन सदस्यों ने अपनी ई—मेल आईडी ज़ कम्पनी / डिपॉज़िटरीज के पास पंजीकृत नहीं करवाड़ ई. उनसे अनुशेध है कि वे इलैक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में उसका पंजीकरण अपने डेपॉज़िटरी प्रतिमागी के पास और भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में उसका पंजीकरण अपने ijeev.kr@kfintech.com अथवा seema_narang@talbros.com को लिखकर करवा लें। एजीएम से जुड़ने की विधि :

. रान्एसडीएल के ई—वोटिंग पोर्टल <u>www.evoting.nsdl.com</u> के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के जरिये एजीएम से जुड़ने की सुविधा उपलब्ध है। सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम के दौरान लॉगइन हेतु विस्तृत प्रक्रिया के लिए 65वीं एजीएम की सूचना देखें।

5—वोटिंग के संबंध में किसी संदेह/शिकायत की स्थिति में अथवा वीसी/ओएवीएम के जरिये रूजीएम में भाग लेने हेतू तकनीकी सहायता के लिए, सदस्यगण www.evoting.nsdl.com के "डाउनलोड सैक्शन" के अन्तर्गत उपलब्ध शेयरधारकों के लिए फ्रिक्वेंटली आरंबड क्वेंशचन्र (FAQs) तथा शेयरधारकों के लिए ई—वोटिंग यूज़र मैनुअल का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथव ित्रके तथा रायवारिक के लिड्ड इन्यान्त पूजा ने मुंजी के सिर्वार के सिर्वार है अथवा टोलाफ़ी नंबर 1800 1020 990 तथा 1800 224 430 पर कॉल कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड से नामित ई—मेल आईडी — evoting@nsdl.co.in अथवा SoniS@nsdl.co.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।

बक क्लोजर एवं लाभांश का भगतान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां सोमवार, 19 सितम्बर, 2022 से सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 तक (दोनों तिथियों सहित) 65वीं एजीएम तथा इक्विटी शेयर्स पर लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, के अधिकार निर्धारण के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

कृते टालब्रोस ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स लिमिटेड

म्थान : फरीटाबाट (सीमा नारंग)

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड ("आईएचएफएल") प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शनऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **सारेक टोनी अलीस अल्वारीज और** सनीता टोनी अल्वारीज को 29.07.2019 की सचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. S053OXXIII-01 (आईएचएफएल का पूर्व कर्ज खाता नं. HHLDUB00371499) की राशि रू.3,55,44,939 (रूपये तीन करोड़ पचपन लाख चौवालीस हजार नौ सौ उनतालीस मात्र) और 27.07.2019 के अनसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते <u>ह</u>ुए अभियाचना सूचना जारी की थी । इसके अलावा **आईएचएफएल ने इंडियाबुल्स असेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी** लिमिटेड के पक्ष में <mark>इंडियाबुल्स एआरसी –XXIII ट्रस्ट के ट्रस्ट्री</mark> के रूप में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी मधिकार, शीर्षक और ब्याज 31.12.2021 को एक असाइनमेंट समझौते के माध्यम से सौपा है, इसके अलाव इंडियाबल्स असेटसरिकन्स्टक्शन कंपनी लिमिटेड, इंडियाबल्स एआरसी –XXIII टस्ट के टस्टी ने दिनांक 29.06.2022 के असाइनमेंट करार के माध्यम से असेटस केअर एन्ड रिकन्स्टक्शन एन्टरणादजेस लि (**''एसीआरई'')** के पक्ष में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज सौंपा है ।

धनराशि चकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतददारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सचना दें जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत ... सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 27 08 2022को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.3,55,44,939 (रूप<mark>ये तीन करोड़ पचपन लाख</mark> चौवालीस हजार नौ सौ उनतालीस मात्र) 27.07.2019 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ असेटस केअर एन्ड रिकन्स्टक्शन एन्टरप्राइजेस लि.के आधीन होगा.

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण

गाँव ग्वाल पहाडी में स्थित सेक्टर-2 में क्रिश प्रोवेंस एस्टेट से पहचाने जानेवाले हाउसिंग प्रोजेक्ट में टावर-सी में छठी मंजिल पर अपार्टमेंट/फ्लैट नं. 602 जिसका संभावित सुपर क्षेत्र 5800 चौरस फीट, दो कवर्ड कार पार्किंग के जगह के साथ, तहसील सोहना, गुरुग्राम फरीदाबाद रोड, गुरुग्राम -122001, हरियाणा, निम्ननुसार परिबध्द है :-

पूर्व : टाइटल डीड के अनुसार पश्चिम : टाइटल डीड के अनुसार

उत्तर : टाइटल डीड के अनुसार दक्षिण : टाइटल डीड के अनुसार

प्राधिकृत अधिकारी असेटस केअर एन्ड रिकन्स्टक्शन एन्टरप्राइजेस लि. दिनांक: 27.08.2022

स्थान : गुरुग्राम (102- ट्रस्ट)

AMBIT Finvest अम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड **नेगमित कार्या :** कनाकिया वॉल स्ट्रीट, 5वीं मंजिल, ए 506—510, अंधेरी कूर्लो रोड, अंधेरी ईस्ट, मु**ग**ई 40009: मांग सचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 'अधिनियम'') और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली'') के प्रावधानों के अंतर्गत (जाबानपन) जार त्राराष्ट्रारा 19 प्रपान) गानियायित, 2002 (निषनायित) के प्राप्याना के अर्पाय अन्विट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधीहस्ताक्षरी ने नियम 3 के साथ पिट्ठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रयत्त शक्तियों के अनुपालन में और अधिनियम के अंतर्गत उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना / ओं में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित ऋणी(यों) को बुलाने के लिए अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग् सूचनाएं जारी की थीं। अधोहस्ताक्षरी कारणवश मानता है कि ऋणी मांग सूचना(ओ) की सेवा के अनदेखा कर रहा है, अतः सूचना की सेवा नियमों के अनुसार जोड़कर और प्रकाशन द्वारा प्रमावित की जा रही है। मांग सूचना(ओं) की सामग्री यहां नीचे दी जा रही है:

भारतात । भाग सूच भारता भाग वर्ग भाग वर्ग भाग वर्ग भाग वर्ग भाग स्थाप							
ऋणी(यों) के नाम	मांग सूचना तिथि	अचल संपत्ति / गिरवी संपत्तियों का विवरण					
1. आहूजा इंटरप्राइजेज 2. श्याम आहूजा 3. कीर्ति आहूजा Lan Nos. DEL000000017612	पशि 19.08.2022 रू. 47.27,714.07/- (रुपए सैंतालीस लाख सताईस हजार सात से चौदह व सात पैसे केवल) 19.08.2022 तक	जयल संपाता । गरेवा संपाता को विवर संपत्ति बियरिंग के सभी भाग व पार्सल : प्लॉट नं. फ्री होल्ड संपत्ति बियरिंग नं. एफ—108 के पूरे भाग पर निर्मित, क्षेत्र माप 45 वर्ग यार्ड लगभग खसरा नं. 649 का भाग, गांव बसई दारापुर कॉलोनी के क्षेत्र में स्थित, युदर्शन पार्क के रूप में ज्ञात, नई दिल्ली—110 015 उक्त संपत्ति की सीमाएं : पूर्व : सड़क, पश्चिम : पैसेज, उत्तर : अन्य संपत्ति, दक्षिण : अन्य संपत्ति					
1. राधा कृष्ण आचार्य 2. कविता आचार्य Lan Nos. DEL000000022958	23.08.2022 रू. 26,26,921.41/- (रुपए छब्बीस लाख छब्बीस हजार नौ सो इक्कीस व इक्कालीस पैसे केवल) 23.08.2022 तक	संपत्ति बियरिंग के सभी भाग व पार्सल : फ्री होल्ड आवासीय प्लॉट क्षेत्र माप 50 वर्ग यार्ड अर्थात् 41.80 वर्ग मीटर, खसरा नं. 13 / 20 का भाग, स्ट्रीट 2ए, ए2 ब्लॉक, गांव कमलपुर माजरा, बुराड़ी, दिल्ली, चंदन विहार के रूप में ज्ञात आबादी पश्चिम संत नगर, बुराड़ी दिल्ली—110084 उक्त संपत्ति की सीमाएं : पूर्व : अन्य प्लॉट, पश्चिम : अन्य प्लॉट, उत्तर : अन्य प्लॉट, दक्षिण : 14 फुट चौड़ा रोड					
1. मैसर्स साई फूड्स 2. श्रीमती मीना 3. श्रीमती मीना क्वान्ती मीना के कानूनी वारिस द्वारा 4. श्रीमती रेखा रानी स्वर्गीय श्री सुमित के कानूनी वारिस के द्वारा 5. श्रीमती रेखा रानी	23.08.2022 रु. 93.99,040.53/- (रूपए तिरानवे लाख निन्यानवे हजार चालीस व तिरप्पन पैसे कंवल) 23.08.2022 तक	संपत्ति बियरिंग के सभी भाग व पार्सल : फ्री होल्ड आवासीय संपत्ति नं. 72, डी— ब्लॉक पर निर्मित क्षेत्र माप 200 वर्ग यार्ड अर्थात् 168 वर्ग मीटर, खसरा नं. 352 का भाग, गांव रोशन पुरा दिल्ली में स्थित, स्टेट दिल्ली, रोशन विहार— ।। के रूप में ज्ञात क्षेत्र आबादी, नजफगढ़, नई दिल्ली— 100 043 उक्त संपत्ति: पूर्व : दूसरों का प्लॉट, पश्चिम : दूसरों का प्लॉट, उत्तर : सड़क 16 फुट दक्षिण : गली 8 फुट					

ऋणी(याँ) को एतदद्वारा मांग सूचनाओं को पूरा करने और भुगतान की वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्ययों के सहित इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर उसमें और ऊपर्वर्णित मांग राशि का भुगतान करने की सलाह दी जाती है। ऋणी(ओं) ध्यान दें कि एएफपीएल प्रतिमृति ऋणदाता है और ऋँणी(याँ) द्वारा ली गई ऋण सुविधा ऋणी(याँ) द्वारा गिरवी अबल संपत्ति / संपत्तियों मौजूदा प्रतिमृतित संपत्ति(याँ) के विरुद्ध प्रतिभृतित ऋण है अगर ऋणी निर्धारित समय के मीतर पूर्ण में अपनी देयताओं को पूरा करने में असफल हैं, एएफपीएल अधिनियम और उसके तहत नियमों के तूहत बिक्री या आहवान द्वारा या किसी अन्य उपाय द्वारा उसके इस्तातंरण तक् सीमित न रहकर प्रतिभतित संपत्तियों का कब्जा लेने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी सानाचा १ रहेजर आसूर्तारा स्ताराचा या जेळा थे गर वेर हो जाना पाया है। यह स्ताराचा अर्ज के प्रति स्व अधिकारों को पालन करने का हकदार होगा । एएफपीएलको बिक्री या हस्तांतरण के ओछिकार से कछ करने से पहले प्रतिभूतित संपत्ति(यों) को जोड़ने और / या सील करने का भी अधिकार है । प्रतिभूति संपत्ति(या) की बिक्री के साथ ही, एएफीएल को शेष देयों को वसूल करने के लिए अगल से कानूनी प्रक्रियाओं को शुरू करने का भी अधिकार है, यदि गिरदी संपत्तियों का मूल्य एएफपीएल को देय योग्य बकाया को वसूल करने के लिए अपयोग्द हैं, यदि पाया किसी अन्य कानून के तहत एएफपीएल उ उपलुब्ध सभी अन्य उपलुब्ध उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र हैं। ऋणी(यों) का ध्यान प्रतिभूतित् उपलब्ध सना अन्य उपलब्ध उपाया ये जातारपरी और स्वार्य है। ऋगारपरी येथा अपित्रीर है संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) के लिए आनिर्देश है और अधिनियम की धारा 13(13) के साथ, जिसमें ऋणी एएफपीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिन् प्रतिभूतित संपत्ति(यों) में से किसी की बिक्री, लीज या अन्यथा (व्यापार के साधारण कोर्स के अलावा ब्रारा हस्तातरण या निपटान या प्रतिभृति संपत्ति(या) से डील करने के लिए बाधित ? प्रतिबंधित हैं और उक्त की गैर–अनुपालनता उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत एक दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताहरी के पास उपलब्ध है और ऋणी(याँ), यदि इच्छुक है, तो सामान्य कार्यालय घंटों के

दौरान किसी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे एकत्र कर सकते हैं। हस्ता. / — प्रशांत ओहल, प्राधिकृत अधिकारी अम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

एम एम टी सी भारत सरकार का उपक्रम A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE touching lives, adding value

एमएमटीसी लिमिटेड

DEL 000000019549

सीआईएन: L51909DL1963GOI004033

(भारत सरकार का एक उद्यम)

कोर -1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003 Email: mmtc@mmtclimited.com Website: www.mmtclimited.com

30 / 06 / 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैंडअलोन और समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का उद्धरण

(₹ करोड़ में, प्रति शेयर डेटा को छोड़कर)

क्रम सं		स्टैंडअलोन				समेकित			
	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
		30.06.22	31.03.22	30.06.21	31.03.22	30.06.22	31.03.22	30.06.21	31.03.22
		(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	संचालन से कुल आय	247.70	1,170.41	4,168.81	8,393.29	1511.34	2255.59	4903.74	11796.24
2	कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों से पहले)	(126.73)	457.70	(59.42)	275.80	(131.96)	459.10	(72.60)	244.63
3	संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) का हिस्सा (कर का निवल)	_	-	_	_	9.45	5.95	(0.95)	11.65
4	कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(125.74)	473.80	(81.85)	120.60	121.52	481.15	95.99	101.08
5	कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवाद मदों के बाद)	(125.74)	111.27	(81.85)	(241.93)	(121.85)	118.38	(96.18)	(262.38)
6	कुल व्यापक आय जिसमें कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि) और कर पश्चात								
	अन्य व्यापक आय	(129.67)	118.67	(80.50)	(229.06)	(125.62)	126.10	(94.72)	(247.83)
7	दत्त इक्विटी शेयर पूंजी(शेयर का अंकित मूल्य ₹ 1 प्रत्येक)	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
8	अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)				43.40				(298.09)
9	प्रति शेयर आय (₹ 1/— प्रत्येक) (वार्षिक नहीं):								
	(ए) बेसिक	(0.84)	0.74	(0.55)	(1.61)	(0.81)	0.79	(0.64)	(1.75)
	(बी) डाईलुटेड	(0.84)	0.74	(0.55)	(1.61)	(0.81)	0.79	(0.64)	(1.75)
A	A								

(1) उपरोक्त परिणामों की समीक्षा निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा 30.08.2022 को आयोजित अपनी बैठक में की गई है और उसी दिन आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनमोदित किया गया है।

(2) कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत अपेक्षित इन वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।

(3) पिछली तिमाहियोंध्वर्षों के आंकडों को तदनसार पुनर्समहितध्यनरू व्यवस्थित किया गया है ताकि जहां कहीं आवश्यक हो, उन्हें तलनीय बनाया जा सके।

(4) उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट (www.nseindia.com और www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.mmtclimited.com) पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा (कपिल कुमार गुप्ता) निदेशक (एफ) और सीएफओ

डीआईएनः 08751137

रा इस्तांतरित नेहीं करेंगे ।

HDFC BANK कानूनी प्रकोष्ठ Ne understand your world प्लॉट # 31, नजफगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया, टॉवर—ए, पहेली मंजिल, शिवाजी मार्ग, मोती नगर, नई दिल्ली—110015

मांग सचना वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

निम्नलिखित ऋणियों व सह—ऋणियों ने एचडीएफसी बैंक लि. सं नीचे वर्णित प्रतिमृतित ऋण लिया था, नीचे वर्णित ऋणियों व सह—ऋणियों के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों की गिरवी द्वारा प्रतिभृतित हो चुके हैं। क्यों के वे संबंधित ऋण अनुबंधों के नियमों व शर्तों का पालन करने में असफल रहे हैं और अनियमित बन चुके हैं, उनके ऋण खातों को आरबीआई दिशा—निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप मे वर्गीकृत किया गया था। एचडीएफसी लि. को उनके द्वारा देय राशि नीचे तालिका में वर्णित हैं और उक्त राशि पर भावी ब्याज लागू अनुसार देययोग्य भी होगा और उनकी संबंधित तिथियों से प्रभाव के साथ प्रभारित किया जाएगा ।

	दययाग्य मा हो गो आर उनका संबंधत तिथिया स प्रमाव के सीथ प्रमारित किया जिए गो।							
ऋण खाता सं.	लिया गया ऋण ४ उत्पाद	ऋणी व सह—ऋणियों / गिरवीकर्ता के नाम	13(2) अनुसार बकाया ⁄ सूचना तिथि	प्रतिभूतित परिसंपत्तियों का विवरण	एनपीए की तिथि			
82690746	संपत्ति पर ऋण	1. मैसर्स परसोना प्राइम फिटनेस क्लब (ऋणी) इसके पार्टनर श्री रोहित कुमार व	₹. 33.55.926 /-	प्लॉट नं. 467, क्षेत्र माप 138.75 वर्ग मीटर, ब्लॉक—सी, सेक्टर	05.08.22			
83158737	संपत्ति पर ऋण	श्री दीपक कुमार	/ सूचना तिथि	पी—3, जिला गौतम बुद्ध नगर,				
8290020	संपत्ति पर ऋण एलएपी— गिरवी— जीईसीएल	2. श्री बुजेश कुमार (सह—ऋणी व गिरवीकता) पुत्र श्री स्वरूप सिंह 3. श्री दीपक कुमार (सह—ऋणी) पुत्र श्री वीरेंद्र 4. श्री रोहित कुमार (सह—ऋणी) पुत्र श्री बृजेश कुमार	22 अगस्त, 2022	उप्र. में स्थित, (श्री बृजेश कुमार के स्वामित्व में) सीमाएं निम्नानुसार हैं : उत्तर : 12 मीटर चौड़ रोड, दक्षिण : अन्य प्लॉट, पूर्व : 12 मीटर चौड़ा रोड, पश्चिम: संपत्ति नं. 466				
91778513 (पुराना ऋण सं.) HLAP601100 00632481)	सीबीएल ऋण संपत्ति पर ऋण	1. श्री सरबजीत सिंह (ऋणी) पुत्र श्री त्रिलोचन सिंह 2. मैसर्स रोटोटक (सह—ऋणी) इसके पार्टनर श्री सरबजीत सिंह व श्रीमती दलेर कौर के माध्यम से 3. श्रीमती दलेर कौर (सह—ऋणी व गिरवीकर्ता) पत्नी श्री त्रिलोचन सिंह	रु. 54,73,474 /— 17.08.2022 तक / सूचना तिथि 16.08.2022	संपत्ति बियरिंग नं. 103, ब्लॉक सी, आनंद निकेतन सीएचबीएस लि. के लेआउट प्लान में, आनंद निकेतन नई दिल्ली, कुल भूमि माप 385 वर्ग यार्ड सीमाएं उत्तर: सड़क नं. 10, दक्षिण: प्लॉट नं. सी–104, पूर्व: सर्विस लेन, पश्चिम: सड़क नं. 11	03.08.22			
83983953	संपत्ति पर ऋण	1. मैसर्स दिव्यांशी इम्पैक्स (ऋणी) इसके मालिक श्री अमित सेठ के माध्यम से 2. श्रीमती नीलिमा सेठ (ऋणी व	रु. 50,00,294 / — 29.07.2022 तक / सूचना तिथि	ग्राउंड फ्लोर, छत अधिकारों के साथ, संपत्ति बियरिंग नं. 41 ब्लॉक—एम— 2, अब एम—2 / 41 के रूप में ज्ञात	06.08.22			
8212030	एलएपी—गिरवी जीईसीएल	2. श्रीमता नालिमा सठ (ऋणा व निरवीकती) पत्नी श्री अमित सेठ 3. श्रीमती अरुणा सेठ (सह—ऋणी व निरवीकती) पत्नी श्री विनोद कुमार सेठ 4. श्री अमित सेठ (सह—ऋणी) पुत्र श्री विनोद कुमार सेठ	⁄ सूयना सिव 28 जुलाई, 2022	(पुराना प्लॉट नं. बी—41), क्षेत्र माप 112 वर्ग यार्ड, गांव छिरपुर क्षेत्र, मोहन पार्क के रूप में ज्ञात कॉलोनी, मॉडल टाउन ।।।, दिल्ली में स्थित श्रीमती अरूणा सेठ उर्फ अरूण प्रमा संठ व श्रीमती नीलिमा सेठ के स्वामित्व में				

चूंकि आपको जिस पते जिसमें आप मूलतः रहते हैं ∕ व्यापार करते हैं ∕ लाभ के लिए व्यक्तिगत कार्य करते हैं पर भेजी गई सूचना हमें वापस नहीं मिली हैं, हम इस कारण से यह सूचना प्रकाशित करने के लिए बाधित हैं। आपको एतदद्वारा इस सूचना के 60 दिनों के भीतर उनकी संबंधित तिथियों से उसपर ब्याज की अनुबंध दर के साथ उक्त वर्णित देयता और अन्य लागत, शुल्कों आदि को पूरा करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत बुलाया जाता है, असफलू होने पर बैंक उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करने के लिए बाधित होगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार , आप उपरोक्त प्रतिभूतित संपत्तियों को बिक्री, लीज या अ

एचडीएफसी बैंक लि. के लिए, प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 31.08.2022, स्थान : नई दिल्ली

जगह: नई दिल्ली दिनांक: 30.08.2022

Indiabulls

(CIN: L65922DL2005PLC136029)

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting ("AGM") of the

Manner of casting vote(s) through e-voting:

Exchange(s), as above

https://emeetings.kfintech.com/ Link for remote e-voting For Individual Members:

> https://www.cdslindia.com/ (holding securities in demat node with CDSL)

register the same with the Company, as per the following procedure

einward.ris@kfintech.com.

iii)Alternatively, by submitting a duly filled-in form 'E-communication Registratio Form', available on the website of the Company, which shall also be appended t the Notice of AGM.

For permanent registration of their e-mail addresses and bank mandate for receiving

Sd/-

Company Secretary

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Raj

Kumar S/0 Baig Raj R/O, A-69, Dugga Colony. Devli Road Khanpur, Delhi-62, is applying to the Secretary To the Government of India in the Ministry Of Home Affairs for Naturalization and that Any person who knows any reason why Naturalization should not be granted should Send a written signed statement of the facts to the said